



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 1976/अश्विन 8, 1898

No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1976/ASVINA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th September 1976

S.O. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by State Bank of India, establishes, with effect from the 30th September, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Andhra Pradesh under the name of Sri Visakha Grammeena Bank, which shall operate within the local limits of the districts of Visakhapatnam & Srikakulam in the State of Andhra Pradesh.

[No. F.4-84/76-AC(I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1976

क्र० घा० 644(अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक

(1887)

के अनुरोध पर 30 सितम्बर, 1976 से आंध्र प्रदेश राज्य में 'श्री विशाख ग्रामोण बैंक' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखपट्टनम एवं श्रीकाकुलम जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपनी कारोबार करेगा।

[सं. एक. 4-84/76 ए. सी. (1)]

S.O. 645(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, by which Sri Visakha Grameena Bank has been sponsored, specifies Srikakulam as the place where Sri Visakha Grameena Bank shall have its head office.

[No F.4-84/76-AC(II)]

कां. प्रा. 645 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्री विशाख ग्रामोण बैंक को प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक को परामर्श से श्रीकाकुलम को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर श्री विशाख ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं. एक. 4-84/76 ए. सी. (2)]

New Delhi, the 30th September 1976

S.O. 646(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Sri Visakha Grameena Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F.4-84/76-AC(III)]

M. G. BALASUBRAMANIAN, Addl. Secy.

नई दिल्ली 30 सितम्बर, 1976

कां. प्रा. 646 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुरोध में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 'श्री विशाख ग्रामीण बैंक' को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. एक. 4-84/76-ए. सी. (3)]

एम. जी. बालसुब्रमण्यन, अपर सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

NOTIFICATION

Bombay, the 30th September 1976

S.O. 647(E)—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Sri Visakha Grameena Bank, Srikakulam.

[DBOD No. 129/INCL./C 102-76]

K. S. KRISHNASWAMY,

Dy. Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक
(बैंकिंग परिचायन तथा विकास विभाग)

अधिसूचना]

बम्बई, 30 सितम्बर, 1976

का० आ० 647(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) क खण्ड (क) क अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नांकित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात्:—

श्री विशाख ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम ।

[डी बी ओ डी सं० 129/आई० एन० सी० एल०/सी० 102/76]

के० एस० कृष्णस्वामी,
उप-गवर्नर ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

